



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2324]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 4, 2012/अग्रहायण 13, 1934

No. 2324]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 4, 2012/AGRAHAYANA 13, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2012

का.आ. 2818(अ).—निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) नियमावली, 1964 के नियम 3 के साथ पठित निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 3 के अनुसरण में केन्द्र सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार की दिनांक 9 नवम्बर, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2856(अ), में एतद्वारा आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

क्र. सं.	नाम	पदनाम	अवधि
"1	श्री जे. एस. दीपक, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली	अध्यक्ष	इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष ।"

[फा. सं. 2/18/2010/निर्यात निरीक्षण]

ए. के. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी.—मूल अधिसूचना दिनांक 9 नवम्बर, 2009 को का.आ. 2856(अ), द्वारा प्रकाशित की गई थी और तदुपरान्त दिनांक 13 जनवरी, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 70(अ), दिनांक 26 फरवरी, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 487(अ), दिनांक 24 मई, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1153(अ), दिनांक 24 अक्टूबर, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2430(अ), और दिनांक 24 जनवरी, 2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 155(अ), द्वारा उसमें संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 2012

S.O. 2818(E).—In pursuance of Section 3 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) read with rule 3 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, the Central Government hereby makes the following further amendments in notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, number S.O. 2856(E), dated the 9th November, 2009, namely :—

In the said notification, for serial number 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

Serial Number	Name	Designation	Tenure
"1	Shri J. S. Deepak, Additional Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, New Delhi	Chairman	Two years from the date of publication of this notification."

[F. No. 2/18/2010-Export Inspection]

A. K. TRIPATHY, Jt. Secy.

Footnote.—The principal notification was published *vide* number S.O. 2856(E), dated the 9th November, 2009 and subsequently amended *vide* number S.O. 70(E), dated the 13th January, 2010, number S.O. 487(E), dated the 26th February, 2010, number S.O. 1153(E), dated the 24th May, 2011, number S.O. 2430(E), dated the 24th October, 2011 and number S.O. 155(E), dated the 24th January, 2012.